

**DIPLOMA IN VALUE ADDED PRODUCTS
FROM FRUITS AND VEGETABLES (DVAPFV)**

Term-End Examination

June, 2015

**BPVI-003 : FOOD CHEMISTRY AND
PHYSIOLOGY**

Time : 2 hours

Maximum Marks : 50

Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

- | | |
|---|----------------|
| 1. Correct the statements as Yes or No. | 10x1=10 |
| (a) Vitamin A is a fat soluble Vitamin. | Yes/No |
| (b) Deficiency of Manganese causes Goiter. | Yes/No |
| (c) Tocopherols have anti-oxidative properties. | Yes/No |
| (d) Betalains are natural food colourants. | Yes/No |
| (e) Aspartame is synthetic sweetener. | Yes/No |
| (f) Excess of potassium causes uneven ripening in tomato. | Yes/No |
| (g) Safe temperature for storing ripe mango is 25°C. | Yes/No |
| (h) Lemon is a climacteric fruit. | Yes/No |
| (i) Sucrose is a non-reducing sugar. | Yes/No |
| (j) Yeast is used in wine preparation. | Yes/No |

- 2.** Choose the right answer by marking (✓) **10x1=10**
- (a) Fructose is a mono/disaccharide sugar.
 - (b) Anthocyanin is water soluble/insoluble pigment.
 - (c) Amylase is a long straight/branched chain of glucose molecule.
 - (d) Pectin is a gelling/non-gelling agent.
 - (e) Linoleic acid is a unsaturated/saturated fatty acid.
 - (f) Lipase enzyme breakdown protein/fat.
 - (g) Bengal gram has protein around 31%/21%.
 - (h) Soft water has less/more than 50 ppm CaCO_3 .
 - (i) For chlorination of water, CaCl_2 /Sodium hypochloride is used.
 - (j) Night-blindness is mainly due to deficiency of vitamin D/vitamin A.
- 3.** Write notes on the following : **5x2=10**
- (a) Rancidity
 - (b) Balanced diet
- 4.**
- (a) What is the societal role of a food chemist ? **5**
 - (b) How does the softening of tissue occur during ripening of fruits ? **5**

5. Match the word in Column 'A' with Column 'B'.

$10 \times 1 = 10$

A

B

- | | | |
|----------------------------|--------|--|
| (a) Saccharine | (i) | An Enzyme |
| (b) Tocopherol | (ii) | Cashew wine |
| (c) Vitamin B ₁ | (iii) | Wine preparation |
| (d) Ascorbic acid | (iv) | Water soluble pigment |
| (e) Anthocyanin | (v) | Vitamin C |
| (f) Yeast | (vi) | Beriberi |
| (g) Fenny | (vii) | Antioxidant |
| (h) Catalase | (viii) | Sweetener |
| (i) Pruning | (ix) | Retinol |
| (j) Vitamin A | (x) | Removal of unnecessary
part of tree |

6. (a) Write two minerals required for formation 2
of bone and teeth.

(b) Write four food sources abundant in 2
Vitamin C.

(c) Write four natural food colorants. 2

(d) Write four essential amino acids. 2

(e) Write four water soluble vitamins. 2

7. Correct the statements by marking Yes or No. $10 \times 1 = 10$

(a) Banana is a climacteric fruit. Yes/No

(b) Calyx is the outer whorl of sepals. Yes/No

(c) Hydrochloric acid constitute the acid Yes/No
content in fruits.

(d) Cider is prepared from Jack fruit. Yes/No

(e) Rum is prepared from malted grain. Yes/No

- (f) Sinki is fermented product from radish. Yes/No
- (g) Glucose is a non-reducing sugar. Yes/No
- (h) Folic acid is a fatty acid. Yes/No
- (i) Wheat has more protein than green gram. Yes/No
- (j) Egg white has fat and minerals. Yes/No
8. Define the following processes. **2x5=10**
- (a) Fermentation
- (b) Respiratory quotient
- (c) Respiratory climacteric
- (d) Micronutrient fortification
- (e) Denaturation of protein
-

**फलों एवं सब्जियों से मूल्य संवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा
(डी.वी.ए.पी.एफ.वी.)**

सत्रांत परीक्षा

जून, 2015

बी.पी.वी.आई.-003 : खाद्य रसायन और कार्यिकी

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

- 1. निम्नलिखित कथनों को सही या गलत के रूप में ठीक कीजिए :** **10x1=10**
- (a) विटामिन ए, वसा घुलनशील विटामिन है। **सही/गलत**
 - (b) मैंगनीज़ की कमी से ग्वाइटर (बेंधा) नामक रोग हो जाता है। **सही/गलत**
 - (c) टोकोफेरोल में प्रति ऑक्सीकारक गुणधर्म होते हैं। **सही/गलत**
 - (d) बीटालेनिन, प्राकृतिक खाद्य रंगक हैं। **सही/गलत**
 - (e) ऐस्पार्टेम कृत्रिम मधुकारी है। **सही/गलत**
 - (f) टमाटर में पोटैशियम की अधिकता से वह समुचित तरीके से पक नहीं पाता। **सही/गलत**
 - (g) पके आम को भंडारित करने का सुरक्षित तापमान 25° से. है। **सही/गलत**
 - (h) नींबू संकटकालीन फल है। **सही/गलत**
 - (i) सुक्रोज गैर अपचायक शर्करा है। **सही/गलत**
 - (j) यीस्ट का प्रयोग मदिरा निर्माण में किया जाता है। **सही/गलत**

2. सही उत्तर का चयन, (✓) का निशान लगा कर कीजिए। $10 \times 1 = 10$
- फ्रूक्टोज, मोनो/डाइसैक्वेराइड शर्करा है।
 - एंथोसाइनिन, जल घुलनशील/अघुलनशील वर्णक है।
 - एमाइलेस, ग्लूकोज़ अणु की लंबी सीधी/शाखित (branched) शृंखला है।
 - पेक्टिन जेलकारी/गैर जेलकारी कर्मक है।
 - लाइनोलिक अम्ल, असंतृप्त/संतृप्त वसा अम्ल है।
 - लाइपेज एंजाइम, प्रोटीन/वसा को तोड़ता है।
 - बंगाल ग्राम (काले चने) में लगभग 31%/21% प्रोटीन होता है।
 - मृदु जल में CaCO_3 50 पी.पी.एम. से निम्न/अधिक होता है।
 - जल की क्लोरीनीकरण के लिए CaCl_2 /सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है।
 - रत्तौंधी उत्पत्ति का मुख्य कारण विटामिन डी/विटामिन ए की कमी होना है।
3. निम्नलिखित पर नोट लिखिए : $5 \times 2 = 10$
- विकृत गंधिता
 - संतुलित भोजन
- 4.
- | | |
|--|---|
| (a) खाद्य रसायनज्ञ की समाजकीय भूमिका क्या है? | 5 |
| (b) फलों के पक्वन के दौरान ऊतक नर्म कैसे पड़ जाते हैं? | 5 |

5. मिलान कीजिए :

10x1=10

क ख

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (a) सैकैराइन | (i) एंजाइम |
| (b) टोकोफेरोल | (ii) कैश्यू मदिरा |
| (c) विटामिन बी ₁ | (iii) मदिरा निर्माण |
| (d) ऐसार्बिक अम्ल | (iv) जल घुलनशील वर्णक |
| (e) एंथोसायनिन | (v) विटामिन सी |
| (f) यीस्ट | (vi) बेरीबेरी |
| (g) फेनी | (vii) प्रति ऑक्सीकारक |
| (h) केटालेस | (viii) मधुकारी |
| (i) चेड़ पौधों की कांट छांट | (ix) रेटिनॉल |
| (j) विटामिन ए | (x) चेड़ के अनावश्यक भाग
को हटाना |

6. (a) अस्थि एवं दाँत निर्माण के लिए आवश्यक दो खनिज तत्वों के नाम लिखिए। 2
- (b) विटामिन सी भरपूर मात्रा में विद्यमान चार खाद्य स्रोतों को लिखिए। 2
- (c) चार प्राकृतिक खाद्य रंगकों के नाम लिखिए। 2
- (d) चार अनिवार्य ऐमिनो अम्लों के नाम लिखिए। 2
- (e) चार जल घुलनशील विटामिनों को लिखिए। 2

7. निम्नलिखित कथनों को हाँ या नहीं से सही कीजिए। **$10 \times 1 = 10$**
- (a) केला संकटकालीन फल है। हाँ/नहीं
 - (b) कैलिक्स, सैपलों का बाह्य आवर्त है। हाँ/नहीं
 - (c) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से फलों में अम्ल की मात्रा बनती है। हाँ/नहीं
 - (d) साइडर का निर्माण कटहल से होता है। हाँ/नहीं
 - (e) रम, मालिटड अनाज से बनती है। हाँ/नहीं
 - (f) सिंकी, मूली से प्राप्त किण्वित उत्पाद है। हाँ/नहीं
 - (g) ग्लूकोज़ गैर अपचायक शर्करा है। हाँ/नहीं
 - (h) फॉलिक अम्ल, वसा अम्ल है। हाँ/नहीं
 - (i) गेहूँ में हरे चने की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है। हाँ/नहीं
 - (j) अंडे के सफेद भाग में वसा और खनिज तत्व होते हैं। हाँ/नहीं
8. निम्नलिखित प्रक्रमों को परिभाषित कीजिए : **$2 \times 5 = 10$**
- (a) किण्वन
 - (b) श्वसन भागफल
 - (c) श्वसन संकटकालीन
 - (d) सूक्ष्मपोषकतत्व पौष्टिकीकरण
 - (e) प्रोटीन-विकृतीकरण
-